



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 132) पटना, बुधवार, 13 अप्रील 2011

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

9 अप्रील 2011

सं0-बी1-3-37/2011-22—बिहार विधान परिषद के सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2011 के अवसर पर मतदान के दिन मतदान के समय मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों के पहचान के लिए निर्वाचक पहचान पत्र एवं अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2011/एस0डी0आर (बिहार) (परिषद) दिनांक 22 मार्च 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर0 के0 प्रसाद,

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-

सह-सरकार के उप-सचिव।

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक: 22 मार्च, 2011

सं० 3/4/आई.डी./2011/एस0डी0आर(बिहार)(परिषद्)—यतः निर्वाचन आयोग, वर्ष 2000 से लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में विशिष्ट दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों के लिए अनिवार्य पहचान की नीति अपनाता रहा है, ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण रोका जा सके, जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचक के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके ; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35 (3) और 37(2) (ख) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, आयोग निदेश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचकों को मतदान केन्द्र पर निर्वाचक पहचान पत्र या अन्य विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और निर्वाचक पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या उनके द्वारा मना करने की स्थिति में उन्हें मतपत्र प्रदान करने या मतदान करने की अनुमति देने से रोका जा सकता है ; और

3. यतः, निर्वाचकों की पहचान तथा प्रतिरूपण के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में उक्त उपबन्ध 'स्नातक' तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों पर भी समान रूप से लागू होगा और क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक भी होते हैं, उन्हें उनकी विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक के रूप में निर्वाचक पहचान पत्र दिए जा चुके होंगे ;

4. अतः अब, सभी प्रासांगिक तथ्यों तथा विधि तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखने के बाद, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निदेश देता है कि बिहार राज्य के सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचनों में सभी निर्वाचकों को, जिन्हें निर्वाचक फोटो परिचय पत्र जारी किए गए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा जब उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से बिहार राज्य में दिनांक 16 मार्च, 2011 को अधिसूचित विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए, मत डालने मतदान केन्द्रों पर आयेंगे । तथापि आयोग, अत्याधिक सतर्कता बरतते हुए, छूटे हुए निर्वाचकों, जिन्होंने अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्राप्त नहीं किए हैं; द्विवार्षिक निर्वाचनों में मत डालने की अनुमति देगा, बशर्ते पीठासीन अधिकारी या ऐसे अन्य मतदान अधिकारी जिसे इस उद्देश्य के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, के द्वारा उस मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है । उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कुछ दस्तावेज/सबूत प्रस्तुत करने होंगे और आयोग ने ऐसे निर्वाचकों की पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं :-

1. पासपोर्ट
2. वाहन-चालक(ड्राइविंग) लाइसेंस
3. आयकर पहचान (पी.ए.एन) पत्र
4. शैक्षणिक संस्थान जिसमें सम्बन्धित निर्वाचक काम कर रहा हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र ।
5. विश्व विद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का मूल प्रमाण-पत्र
7. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र ।

भवदीय,
के० एफ० विल्फ्रेड,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001, dated: 22nd March, 2011

No. 3/4/ID/2011/SDR/(BR)/(Council)—Whereas, the Election Commission has been following the policy of compulsory identification of electors by means of specified identification documents at elections to the House of the People and Legislative Assemblies from the year 2000 onwards, so as to prevent impersonation at elections thereby making the right of genuine electors to vote under section 62 of the Representation of the People Act, 1951 more effective; and

2. Whereas, keeping in view the provisions of Rules 35(3) and 37(2)(b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission has been issuing directions that the electors at election to House of the people and Legislative Assemblies shall produce their Electoral Identity Cards or other specified documents at the polling station and failure or

refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards or documents may result in the denial of supply of a ballot paper to them and permission to vote; and

3. Whereas, the said provisions regarding identification of electors and safeguards against personation are equally applicable at elections from Graduates' and Teachers' Constituencies, and as the electors in these constituencies are also electors in assembly constituencies, they may have been supplied with Electoral Identity Cards as electors in their respective Assembly Constituencies;

4. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors at the current biennial elections in Saran Graduates' Constituency, Gaya Graduates' Constituency, Gaya Teachers' Constituency and Koshi Teachers's Constituency in the State of Bihar, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the biennial elections to the Bihar Legislative Council from the said Constituencies, notified on 16th March, 2011. Those electors who are not able to produce their EPICs, will have to produce any of the following alternative documents for establishing their identity:-

- (i) Passport.
- (ii) Driving License.
- (iii) Income Tax Identity (PAN) Card.
- (iv) Service Identity Card issued by the educational institutions in which the electors are employed
- (v) Certificate of Degree/Diploma issued by University; in original
- (vi) Certificate of physical Handicap issued by competent Authority, in original
- (vii) Service Identity Cards issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies, Public Ltd., Companies.

Yours faithfully,
K.F. WILFRED,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 132-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>